



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 73]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 9, 1977/फाल्गुन 18, 1898

No. 73]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 9, 1977/PHALGUNA 18, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

DEPARTMENT OF REVENUE AND BANKING

(Revenue Wing)

NOTIFICATIONS

CUSTOMS

New Delhi, the 9th March 1977

G.S.R 107(E)—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking No 395 Customs, dated the 2nd August, 1976, namely —

In the said notification for the words letters, figures and brackets "parts of internal combustion piston engines falling under Heading No. 8406 of the First Schedule to the Customs Tariff Act 1975 (51 of 1975) and proved to the satisfaction of the Assistant Collector of Customs to be required for assembly or manufacture of stationary or industrial internal combustion piston engines, internal combustion piston engines

for industrial and agricultural tractors and marine engines¹, the following shall be substituted, namely —

“parts required for assembly or manufacture of stationary or industrial internal combustion piston engines, internal combustion piston engines for industrial and agricultural tractors and marine engines, being engines falling under Heading No 84 06 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) and proved to the satisfaction of the Assistant Collector of Customs to be so required for such assembly or manufacture”.

[No. 29/F. No. 355/49/77 Cus. I]

राजस्व और बैंकिंग विभाग

(राजस्व पक्ष)

अधिसूचनाएँ

सीमा शुल्क

नई दिल्ली, 9 मार्च, 1977

सा० का० मि० 107(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग की अधिसूचना सं० 395 सीमाशुल्क तारीख 2 अगस्त, 1976 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में “सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के शीर्ष सं० 84.06 के अन्तर्गत सम्मिलित अन्तर्दहन पिस्टन इंजनों के भागों को, और जिनकी बाबत सीमाशुल्क सहायक कलक्टर के समाधानप्रवरूप में यह साबित हो जाता है कि वे औद्योगिक और कृषिक ट्रैक्टरों तथा समुद्री इंजनों के लिए अग्रगामी या औद्योगिक अन्तर्दहन पिस्टन इंजनों, अन्तर्दहन पिस्टन इंजनों की असेम्बली या विनिर्माण के लिए अपेक्षित हैं” शब्दों, अको और कोष्ठकों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् —

“सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के शीर्ष सं० 84 06 के अधीन आने वाले औद्योगिक और कृषिक ट्रैक्टरों तथा समुद्री इंजनों के लिए अग्रगामी या औद्योगिक अन्तर्दहन पिस्टन इंजनों की असेम्बली (समुच्चय) या उनके विनिर्माण के लिए अपेक्षित पुर्जों को, जिनकी बाबत सीमाशुल्क सहायक कलक्टर के समाधानप्रवरूप में यह साबित हो जाता है कि वे उक्त असेम्बली (समुच्चय) या विनिर्माण के लिए अपेक्षित हैं” ।

[सं० 29 फा० सं० 355/49 77-सी०शु० I]

G.S.R. 108(E).—In exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking (Revenue Wing) No 350 Customs, dated the 2nd August, 1976, namely —

In the said notification—

- (1) for the words letters, figures and brackets “parts of any article falling under the Heading No of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), specified in the Schedule hereto annexed, and proved to the satisfaction of the Assistant Collector of Customs to be

required for the purpose of the initial setting up of that article or for its assembly or manufacture, when imported into India," the following shall be substituted, namely —

"parts required for the purpose of the initial setting up, or for the assembly or manufacture, of any article falling under the Heading No. of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), specified in the Schedule hereto annexed, and proved to the satisfaction of the Assistant Collector of Customs to be so required for such setting up, assembly or manufacture,";

(ii) in the Schedule, for the figures "84.01/02", the figures and brackets "82.05(2), 84.01/02" shall be substituted.

[No. 30/F. No. 355/49/77-Cus. I]

M. JAYARAMAN, Under Secy.

सां० का० नि० 108 (अ).—केन्द्रीय सरकार सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग (राजस्व पक्ष) की अधिसूचना सं० 350—सीमा शुल्क तारीख 2 अगस्त, 1976 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

(i) उक्त अधिसूचना में "सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के शीर्ष संख्या के अन्तर्गत सम्मिलित, इस से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट और सीमा-शुल्क सहायक कलेक्टर के समाधानप्रद रूप में यह साबित की गई कि उस वस्तु के प्रारम्भिक स्थापन के प्रयोजन के लिए या उसके समुचय या विनिर्माण के लिए अपेक्षित है, किसी वस्तु के पुर्जों को, जब उसका भारत में आयात किया जाय" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा ।

अर्थात् :—

"सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के शीर्ष संख्या जो इस से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट है के अधीन आने वाली किसी वस्तु के प्रारम्भिक स्थापन या उसके समुचय या विनिर्माण के प्रयोजन के लिए अपेक्षित पुर्जों को, जिनकी बाबत सीमाशुल्क सहायक कलेक्टर के समाधानप्रद रूप में यह साबित कर दिया गया है कि वे ऐसे स्थापन, समुचय या विनिर्माण के लिए अपेक्षित हैं," और

(ii) उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में "शीर्ष सं०" शब्दों के पश्चात् "82.05 (2)" अंक और कोष्ठक अन्तःस्थापित किए जाएंगे ।

[सं० 30/फा० सं० 355/49/77—सी०शु० I]

एम० जयरामन, अवर सचिव ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मद्रासालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियन्त्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

